


# General English For All



## Synonyms and Antonyms

Word	Meaning	Synonym	Antonym
Outrage	रोष	Fury	Glee
Ordain	हुक्म देना	Order	Revoke
Overwhelm	पराजित करना	Triumph	Flounder
Pamper	सिर चढ़ाना	Flatter	Disparage
Paramount	आला दर्जे का	Foremost	Trivial
Peerless	बेमिसाल	Unrivalled	Commonplace
Peevish	चिड़चिड़ा	Perverse	Amiable
Placid	शांत	Calm	Hostile
Pompous	गर्वित	Showy	Unpretentious
Precarious	अनिश्चित, संदिग्ध	Doubtful	Assured

## LET'S LEARN TENSES आओ हम टैंस सीखें-2

### Past Continuous Tense

Present Continuous Tense करने के बाद अब हम आते हैं Past Continuous Tense की तरफ। इस टैंस के वाक्यों के अंत में भी रहा, रही, रहे आदि लगता है। क्योंकि यह Past Tense है, Present नहीं, इसलिए हूँ या हैं की जगह था, थे या थी आदि लगता है। इसलिए Past Continuous Tense के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। इस टैंस में सहायक क्रिया के तौर पर Was या Were लगता है तथा Verb की पहली Form के साथ Ing का प्रयोग होता है। Past Continuous के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :-

तुम पपीते ला रहे थे।  
वे अमरुद बेच रहे थे।  
हम अनार खरीद रहे थे।  
वह एक खुरमानी खा रहा था।  
वह गन्ने बेच रही थी।

You were bringing papayas.  
They were selling guavas.  
We were buying pomegranates.  
He was eating an apricot.  
She was selling sugarcane.

Past Continuous Tense के नावाचक वाक्यों में Was या Were के बाद Not लगाया जाता है जैसे कि स्पष्ट है नीचे दिये वाक्यों में :-

तुम पपीते नहीं ला रहे थे।  
वे अमरुद नहीं बेच रहे थे।  
हम अनार नहीं खरीद रहे थे।  
वह एक खुरमानी नहीं खा रहा था।  
वह गन्ने नहीं बेच रही थी।

You were not bringing papayas.  
They were not selling guavas.  
We were not buying pomegranates.  
He was not eating an apricot.  
She was not selling sugarcane.

Past Continuous Tense के प्रश्नवाचक वाक्यों में Was या Were कर्ता से पहले अर्थात् वाक्य के शुरु में लगता है। जैसे नीचे दिये वाक्यों में :-

क्या तुम पपीते ला रहे थे?  
क्या वे अमरुद बेच रहे थे?  
क्या हम अनार खरीद रहे थे?  
क्या वह एक खुरमानी खा रहा था?  
क्या वह गन्ने बेच रही थी?

Were you bringing papayas?  
Were they selling guavas?  
Were we buying pomegranates?  
Was he eating an apricot?  
Was she selling sugarcane?

अब हम बनाते हैं Past Continuous Tense के वह वाक्य जो कि नावाचक भी है और प्रश्नवाचक भी। जैसे कि:-

क्या तुम पपीते नहीं ला रहे थे?  
क्या वे अमरुद नहीं बेच रहे थे?  
क्या हम अनार नहीं खरीद रहे थे?  
क्या वह एक खुरमानी नहीं खा रहा था?  
क्या वह गन्ने नहीं बेच रही थी?

Were you not bringing papayas?  
Were they not selling guavas?  
Were we not buying pomegranates?  
Was he not eating an apricot?  
Was she not selling sugarcane?

## Phrasal Verbs

**1. Map out =** योजना बनाना  
The govt has mapped out a new route.  
सरकार ने एक नये रास्ते की योजना बनाई है।



**2. Mark down =** कम करना  
The prices of woollen clothes have been marked down because the winter season is nearing its end.  
ऊनी कपड़ों के दाम कम कर दिए गये हैं क्योंकि सर्दी का मौसम अपने अंत के नजदीक आ रहा है।



**3. Mark off =** हदबन्दी करके किसी चीज़ को अलग करना  
They have marked off the badminton ground with a white line.  
उन्होंने एक सफेद लकीर के साथ बैडमिंटन के मैदान को हदबन्दी करके अलग कर दिया है।



**4. Mark up =** बढ़ाना  
The govt has marked up the bus fare.  
सरकार ने बस का किराया बढ़ा दिया है।



**5. Marry off =** विवाह में देना  
Her father married her off to a good boy.  
उसके पिता ने विवाह में उसे एक अच्छे लड़के को दे दिया।



## Antonyms

Out of the four alternatives, choose the one which is antonym to the given words.

**Q. 1. Prosperity**  
(a) Poverty (b) Failure  
(c) Success (d) Cheer

**Q. 2. Vague**  
(a) Needless (b) Deadlock  
(c) Artificial (d) Certain

**Q. 3. Hastily**  
(a) Boring (b) Foolishly  
(c) Spendthrift (d) Leisurely

**Q. 4. Delirious**  
(a) Responsive (b) Insane  
(c) Calm (d) Large

**Q. 5. Autonomous**  
(a) Independent (b) Free  
(c) Dependent (d) Automation

**Q. 6. Podgy**  
(a) Short (b) Thin  
(c) Weak (d) Pleasure

**Q. 7. Sage**  
(a) Rogue (b) Fool  
(c) Egoist (d) Snob

**Q. 8. Virtue**  
(a) Justify (b) Fraud  
(c) Wickedness (d) Crime

**Q. 9. Impudent**  
(a) Impolite (b) Insolent  
(c) Pompous (d) Civil

**Q. 10. Fickle**  
(a) Constant (b) Vulgar  
(c) Irregular (d) Selfish

Answers 1.(a), 2.(d), 3.(d), 4.(c), 5.(c), 6.(b), 7.(a), 8.(c) 9.(d), 10.(a)

## Pronunciation key

नीचे कुछ शब्द दिए गये हैं, जिनका उच्चारण अक्सर गलत किया जाता है। इन शब्दों के गलत व सही उच्चारण नीचे दिए गये हैं।

शब्द	गलत उच्चारण	सही उच्चारण	अर्थ
1. Adolescence	1. ऐंडोलसैंस	1. ऐंडऑलैसॅअॅन्स	1. किशोर अवस्था
2. Alms	2. आल्मज़	2. आम्ज़	2. भिक्षा
3. Almond	3. ऑलमॅन्ड	3. ऑमन्ड	3. बादाम
4. Alter	4. अल्टर	4. ऑलटॅर	4. बदलना
5. Amass	5. अमास	5. अॅमैस	5. इकट्ठा करना

## Incorrect/Correct गलत/सही

**1. Incorrect :** I have been knowing him for ten years.  
**1. Correct :** I have known him for ten years.  
Know का प्रयोग सामान्य अर्थ में किसी भी Continuous Tense में नहीं होता है।

**2. Incorrect :** I am understanding it.  
**2. Correct :** I understand it.  
सामान्य अर्थ में Understand का प्रयोग किसी भी Continuous Tense में नहीं होता है।

**3. Incorrect :** I'll forbid him not to go there.  
**3. Correct :** I'll forbid him to go there.  
Forbid का अर्थ ही होता है कोई काम ना करने देना। Not का अर्थ इस शब्द के अन्दर ही शामिल है। इसलिए Forbid के साथ Not नहीं लगाया जाता है।



# Thought विचार

## ASI killed wife and self एएसआई ने पत्नी और खुद की हत्या की

**Jalandhar :** ASI Gurbaksh Singh, who was posted at Punjab Armed Police (PAP) and was residing in Rama Mandi, shot his wife and then himself with his service revolver on Tuesday. The cause of the incident is yet to be ascertained. The couple has left behind a son and a daughter. "The children Rupinder Kaur (19) and Prabhjot Singh (17) are in a shock and are not in a condition to speak anything about the incident", a senior police officer said.



**जालंधर :** एएसआई गुरबख्शा सिंह, जो पंजाब सशस्त्र पुलिस (पीएपी) में तैनात था और रामा मंडी में रह रहा था, ने मंगलवार को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को और फिर खुद को गोली मार ली। घटना के कारण **Meanings of difficult words**  
Cause = कारण  
Ascertain = पता लगाना

का अभी पता लगाया जाना है। जोड़ा पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। "बच्चे रुपिंदर कौर (19) और प्रभजोत सिंह (17) सदमे में हैं और घटना बारे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं," एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। **कठिन शब्दों के अर्थ**  
Shock = सदमा  
Incident = घटना



Q1. Name the oldest and deepest lake in the world.

संसार में सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील का नाम बताएं।  
**Ans. Lake Baikal.**  
झील बयकाल।

Q2. Who coined the term 'United Nations'?

'यूनाइटेड नेशनज' शब्द को किसने गढ़ा?  
**Ans. Franklin D Roosevelt.**  
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।

Q3. Where is Vivekanand Rock Memorial located?

विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है?  
**Ans. Kanyakumari, Tamil Nadu.**  
कन्याकुमारी, तमिल नाडु।

Q4. Which city has the nickname 'The Big Apple'?

किस शहर का उपनाम 'द बिग एप्पल' है?  
**Ans. New York.**  
न्यू यॉर्क।

Q5. In which present day country did the Mayan civilization exist?

किस वर्तमान देश में माया सभ्यता अस्तित्व में थी?  
**Ans. Mexico.**  
मैक्सिको।

## Answers to the quiz

1. Lake Baikal is located in Southern Siberia. It has an average depth of 744.4m.




झील बयकाल दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। इसकी औसतन गहराई 744.4 मी. की है।

2. He was an American Statesman who served as the 32nd President of the United States from 1933 until his death in 1945.



वह एक अमेरिकी राजनेता थे जिन्होंने 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया।

3. It is a popular tourist monument in Vavathurai, Kanyakumari, India. It was built in 1970 in honour of Swami Vivekanand. It is said that he attained enlightenment on this rock. It is surrounded by the Laccadive Sea.



यह वावाथुराई, कन्याकुमारी, भारत में एक लोकप्रिय पर्यटक स्मारक है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया। यह कहा जाता है कि उन्होंने इस चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया। यह लैकाडाइव समुद्र से घिरा हुआ है।

4. 'The Big Apple' name was first popularised in the 1920's by John J. Fitzgerald who was a sports writer for the New York Morning Telegraph.



'द बिग एप्पल' नाम सबसे पहले जॉन जे फिज़राल्ड द्वारा 1920 के दशक में लोकप्रिय किया गया जो न्यू यॉर्क मॉरनिंग टैलीग्राफ के लिए एक खेल लेखक थे।

5. Mayan civilisation was noted for its hieroglyphic script which was the only known fully developed writing system of the Pre-Columbian America.



माया सभ्यता अपनी चित्रलेख लिपि के लिए प्रसिद्ध थी जो कि प्री-कोलंबियन अमेरिका की एकमात्र जानी जाने वाली पूरी तरह से विकसित लेखन प्रणाली थी।

Small opportunities are often the beginning of great achievements.



छोटे मौके अक्सर बड़ी प्राप्तियों की शुरुआत होते हैं।

**Vocab Curiosity**

**Backronym**

जिस शब्द को पीछे से पढ़ने से एक अलग शब्द बन जाता है, उसे **Backronym** कहते हैं। जैसे कि **Lived**. जब हम **Lived** शब्द को पीछे से पढ़ते हैं, तो यह **Devil** बन जाता है।


● **Backronym** को **Bacronym** भी लिखते हैं।

# BRILLS



# Brills

Brillish seed was sown way back in 1979 when Ashok Sadiora, the founder of Brills started teaching English to collegian students when he himself had just joined college. Brills started putting down the education roots when University English, the maiden book authored by Ashok Sadiora saw its release when he himself was still studying at college. Brills went all roots and plants when Ankur Sadiora took to teaching. Ankur proved the proverb coming events cast their shadow before true when he started teaching college students when he himself was undergoing his matriculation studies. Every one, literally every one, was surprised at the display of Ankur's sharp teaching skills.




**ANKUR SADIORA**  
Dy Chairman

## Why Brills ? Here Passive is Active

Here is a more-often-than-not question put to us: Why Brills? Our always-answer is: Why not? We know this brief answer does not suffice. But suffice it to cite a couple of reasons to convince them to go for Brills. First and the foremost reason is: We are innovative and strain our every nerve to translate that innovation into practice benefitting the students to the maximum.

We are practical and to top it all experienced too. We are not in the clouds but grounded with students-that makes us the first choice with the students who roll out successfully after completing their coaching at Brills. Even most of the students who are passive in studies, get through. That's why it's not with tongue in their cheek but with tongue in their mouth that they pronounce all often- Hey, here is Brills- where even Passive turns Active.



**ASHOK SADIORA**  
Chairman

Brills plant turned oak twelve years ago at Bathinda when Brills got into shape of a group, namely Brills Group of Institutes. Since then, Brills has gone places. By now, Brills has developed its branches at Patiala, Ambala, Kurukshetra Jalandhar and Ludhiana.

Now over to publications. Some of the publications of Brills Group of Institutes have sold like hot cakes. The following books, namely Tenses Made Easy, English Newspaper Reading Made Easy, General English for PCS and English Newspaper Reading Made Easy authored by Ashok Sadiora and Ankur Sadiora have been highly appreciated by one and all and certainly with a reason.

- PATIALA**  
SCO 107, New Leela Bhawan 90410-77930
- BATHINDA**  
#19745, Ajit Road (Main) 92166-2230
- AMBALA**  
Court Road, Near Bank of Baroda 98779-45907
- KURUKSHETRA**  
#19, Ward No.5, Mohan Nagar Opp.B.S. Heart Care Hospital. 98123-20930
- Jalandhar**  
Opp. Bus Stand 62808-56873
- Ludhiana**  
SCO-2, Rayan Tower, Pakhowal Road 85720-60930

## Brills Express

A daily newspaper



For Advertisement Contact

70090-25477

# IELTS English Speaking

Features

# Brills Institute

- Excellent results
- Trained and experienced Faculty Members
- Innovative methods of teaching
- Band snatching vocab
- Free assignments in bulk
- Super special speaking video class
- Band booster writing video class by Ankur Sadiora



Ankur Sadiora Manager Ashok Sadiora MD

Bathinda : Ajit Road Main Mob. 92166-22930, 90417-30876

Patiala : #107, New Leela Bhawan Mob. 90410-77930

Kurukshetra : Mohan Nagar. Opp.B.S. Heart Care Hospital, Mob. 98123-20930

Ambala : Court Road, Near Bank of Baroda. Mob. 98779-45907

Jalandhar : Opp. Bus Stand Mob. 62808-56873

Ludhiana : SCO-2, Rayan Tower, Pakhowal Road 85720-60930



Alka Yagnik ( March 20, 1966) अलका यागनिक (20 मार्च, 1966)



Alka Yagnik is a very popular playback singer of Bollywood film industry. She was born on March 20, 1966 in Kolkata in a Gujarati-Hindu family. She started her singing career at the age of six years when she sang a song for the All India Radio, Kolkata. She has been working in the Hindi film industry for three decades.

Alka has bagged seven Filmfare awards and she is a two time recipient of National Film Award. She has won a lot of other prominent awards like Zee Cine Awards, Star screen awards, Filmfare, IIFA

awards, Bollywood movie awards, etc. Alka has sung in many languages like Gujarati, Avadhi, Odia, Assamese, Rajasthani, Bengali, Bhojpuri, Punjabi, Marathi, Telugu, Tamil, English and Malayalam. She has sung 2,486 Hindi songs in 1,114 films. She is the fifth most prolific Bollywood singer after Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi and Kishore Kumar. She has also been involved in various projects pertaining to empowerment of the girl children.



अलका यागनिक बॉलिवुड फिल्म उद्योग की एक बहुत लोकप्रिय प्लेबैक गायिका हैं। वह 20 मार्च, 1966 को कोलकाता में एक गुजराती-हिंदू परिवार में पैदा हुईं। उन्होंने अपना गायन कैरियर छह साल की उम्र में शुरू किया जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, कोलकाता के लिए एक गीत गाया। वह तीन दशकों से हिंदी फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं।

अलका ने सात फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं और वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की दो बार प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने कई अन्य प्रमुख पुरस्कार जैसे कि जी सिने अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्मफेयर, Meanings of difficult words Bag = जीतना Recipient = प्राप्तकर्ता Prominent = प्रमुख

आईआईएफए अवार्ड्स, बॉलिवुड मूवी अवार्ड्स आदि जीते हैं। अलका ने कई भाषाओं जैसे गुजराती, अवधि, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, तेलगू, तमिल, अंग्रेजी और मलयालम में गाया है। उन्होंने 1,114 फिल्मों में 2,486 हिंदी गाने गाये हैं। वह आशा भोंसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बाद पांचवी सबसे ज्यादा गाने वाली बॉलिवुड गायिका हैं। वह बालिकाओं के सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्टों में भी शामिल रही हैं। कठिन शब्दों के अर्थ Pertain = संबंध रखना Empowerment = सशक्तीकरण

## Whale died after eating 40 kg plastic in Philippines

फिलीपींस में 40 किलोग्राम प्लास्टिक खाने के बाद व्हेल की मौत हुई

Manila : In the capital of Philippines here, a young whale has died from "gastric shock" after eating 40 kg plastic bags, the media reported. The animal lovers and the citizens are shocked to discover the brutal cause of death

of this young whale. In a statement on a Facebook page, museum officials said they have recovered 40 kg plastic bags including 16 rice sacks, four banana plantation bags and multiple shopping bags in the whale's

stomach after conducting an autopsy. "It's disgusting... Action must be taken by the government against those who consider the waterways and ocean dumpsters," a noted local social worker said in mental agony.



मनीला : यहां फिलीपींस की राजधानी में, एक युवा व्हेल की 40 किलोग्राम प्लास्टिक के बैग खाने के बाद "पेट की चोट" से मौत हो गई है, मीडिया ने रिपोर्ट किया। पशु प्रेमी और नागरिक इस युवा व्हेल की मौत के क्रूर कारण का पता लगने पर सदमे में हैं।

Meanings of difficult words Gastric = पेट का Shock = चोट, सदमा Brutal = क्रूर

एक फेसबुक पेज पर एक बयान में, संग्रहालय के अधिकारियों ने कहा उन्होंने एक शव परीक्षण करने के बाद व्हेल के पेट में चावल की 16 बोरियां, केले के बागान के चार बैग और विभिन्न शॉपिंग बैगों समेत 40 किलोग्राम प्लास्टिक के बैग बरामद किये हैं।

Recover = बरामद करना Sack = बोरा Plantation = बागान Autopsy = शव परीक्षण

"यह घृणित है... सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, जो जलमार्ग और महासागर को कूड़े के ढेर समझते हैं, एक स्थानीय प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता ने मानसिक पीड़ा में कहा।"

Disgusting = घृणित Waterways = जलमार्ग Ocean = महासागर Dumpster = कूड़े का ढेर Agony = पीड़ा Noted = प्रसिद्ध

## Fake IPS officer swindled woman of Rs 1 lakh

जाली आईपीएस अधिकारी ने महिला से 1 लाख रुपये की ठगी की

New Delhi : Impersonating as an IPS officer, a 30-year-old man was arrested for allegedly duping a woman on the pretext of providing her a government job in Rohini area. The accused has been identified as Rajkumar who is a resident of Kirari area here.

According to the victim woman, "I met the guy in a gym a couple of months ago. The man introduced himself as an IPS officer and we became friends. Later, he told me that he नई दिल्ली : एक आईपीएस अधिकारी के रूप में भेष बनाते हुए, एक 30-वर्षीय आदमी को एक महिला से रोहिणी क्षेत्र में उसे एक सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर ठगी करने के लिए गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान राजकुमार के रूप में की गई है जो यहां किरारी इलाके का एक निवासी है। पीड़ित महिला के अनुसार, "मैं कुछ महीने पहले आदमी को एक जिम

loved her but could not marry her as he had cancer. He said before dying he wanted to see her as a government officer. He took Rs 1



में मिली। आदमी ने खुद का एक आईपीएस अधिकारी के रूप में परिचय कराया और हम दोस्त बन गए। बाद में, उसने मुझे बताया कि वह उससे प्यार करता था लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे कैंसर था। उसने कहा मरने के लिए मुझे बता दिया।" During interrogation, the

lakh from me. When I did not get any response from him, I learnt he was a conman."

Accused = आरोपी Victim = पीड़ित Conman = ठग Interrogation = पूछताछ Reveal = भेद खोलना Confess = कबूल करना



## Will carry forward Parrikar's legacy of good governance: Pramod Sawant

Panaji : Newly-appointed Goa Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday met family of his deceased predecessor Manohar पुणजी : नए नियुक्त किये गये गोवा के मुख्य मंत्री प्रमोद

Meanings of difficult words Carry forward = आगे बढ़ाना Legacy = विरासत Good governance = सुशासन Deceased = मृतक Predecessor = पूर्वधिकारी Assume charge = कार्यभार ग्रहण करना Priority = प्राथमिकता Glorious = शानदार

Parrikar at their private residence at Dona Paula before assuming charge of the office.

Speaking to reporters, the new Chief सावंत मंगलवार को कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने मृतक पूर्वधिकारी मनोहर पर्रिकर के परिवार से डोना पाउला में उनकी निजी रिहायश पर मिले।

रिपोर्टर्स से बात

Minister said his priority will be to reach out to every person, and carry forward the "glorious legacy" of good governance left behind by Parrikar.

करते हुए, नए मुख्य मंत्री ने कहा उनकी प्राथमिकता हरेक व्यक्ति तक पहुंच रखना और पर्रिकर द्वारा पीछे छोड़ी सुशासन की "शानदार विरासत" को आगे बढ़ाना होगा।

## Phrases commonly used in newspapers

Put in papers इस्तीफा देना	The Minister put in papers over the issue of corruption. मंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा दिया।
Pull down इमारत आदि को गिराना	The old buildings were pulled down by the authorities. पुरानी इमारतें अधिकारियों द्वारा गिरा दी गईं।
Run over कुचलना	His scooter ran over a dog. उसके स्कूटर ने एक कुत्ते को कुचला।
Set out यात्रा शुरू करना	The pilgrims set out early in the morning. तीर्थयात्रियों ने जल्दी सुबह यात्रा शुरू की।
Set up स्थापित करना	The company has set up its new office abroad. कंपनी ने अपना नया दफ्तर विदेश में स्थापित किया है।
Siphon off गलत तरीके से पैसे निकालना	They siphoned off money from the pension fund. उन्होंने गलत तरीके से पेंशन फंड से पैसे निकाले।
Sort out हल निकालना	They sorted out the problem with the help of authorities. उन्होंने अधिकारियों की मदद के साथ समस्या का हल निकाला।
Stand for समर्थन करना	He promised to stand for freedom of speech. उसने बोलने की आजादी का समर्थन करने का वादा किया।
Step down नौकरी या पद छोड़ना	Iqbal Singh stepped down as Chairman. इकबाल सिंह ने चेयरमैन के रूप में पद छोड़ दिया।